



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

national institute of open schooling

आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित/ISO 9001 : 2015 Certified

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)

(An Autonomous Institution Under Ministry of Education, Govt. of India)

A-24-25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA, Uttar Pradesh-201309

सांकेतिक रिक्ति अधिसूचना

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित एनआईओएस प्रकोष्ठ के लिए संविदात्मक आधार पर **कार्यकारी सहायक** का पद भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। आरंभ में यह संविदा छः माह की अवधि के लिए होगी जिसे संतोषजनक कार्य और एनआईओएस के निर्णय के आधार पर छः माह की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

इच्छुक उम्मीदवार उपर्युक्त पद संबंधी शैक्षिक योग्यता, आयु, अनुभव, परिलब्धियां और नियम और शर्तों संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए एनआईओएस की वेबसाइट www.nios.ac.in पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि समाचारपत्र में प्रकाशन की तिथि से 21 दिन है।

सचिव



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING

आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित/ISO 9001 : 2015 certified

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)

(An Autonomous Institution Under Deptt. Of School Education and Literacy, Ministry of Education, Govt. of India)

ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201309/A-24-25, institutional Area, Sector-62, NOIDA, UTTAR Pradesh - 201309

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित एनआईओएस प्रकोष्ठ के लिए संविदात्मक आधार पर **कार्यकारी सहायक** का पद भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। आरंभ में यह संविदा छः माह की अवधि के लिए होगी जिसे संतोषजनक कार्य और एनआईओएस के निर्णय के आधार पर छः माह की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

| क्र.सं. | पद का नाम | समेकित वेतनमान (प्रतिमाह) | पदों की संख्या |
|---------|-----------------|---------------------------|----------------|
| 1. | कार्यकारी सहायक | ₹ 23,210/- | 01 (एक) |

कार्यकारी सहायक

आवश्यक योग्यता एवं अनुभव

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।
- कंप्यूटर संचालन का कार्यसाधक ज्ञान।
- हिंदी/अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान
- निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या सरकारी संगठन में काम करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव

आयु : 35 वर्ष से अधिक नहीं

अन्य नियम और शर्तें :-

- यह पद विशुद्ध संविदा के आधार पर है और संविदा की अवधि आपसी सहमति पर बढ़ाई जा सकती है। नियुक्त उम्मीदवार को एनआईओएस के साथ एक अनुबंध का पालन करना होगा, जिसका नवीनीकरण संतोषजनक कार्य के आधार पर होगा।
- इस पद पर नियुक्त किए गए उम्मीदवार न तो नियमित काडर का हिस्सा होंगे और न ही नियमित पद की भर्ती के मामले में इस प्रकार संविदा के आधार पर भर्ती किए गए उम्मीदवार को कोई विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
- नियुक्त उम्मीदवार का संविदा अवधि पूरी होने से पहले या बाद में एनआईओएस में नियमितीकरण/आमेलन के लिए अनुरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- संविदा के दौरान, यदि आवश्यकता हुई तो, संविदात्मक कार्मिक को भारत के किसी भी हिस्से में जाना होगा और उन्हें एनआईओएस के कार्य के संबंध में सौंपे गए दायित्वों का पालन करना होगा।

आवेदन कैसे करें :

1. उम्मीदवार एनआईओएस की वेबसाइट www.nios.ac.in/vacancy पर जाएं और वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। उम्मीदवारों के पास वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए।
2. ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि समाचारपत्र में प्रकाशन की तिथि से दिन है 21।
3. उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पर निर्धारित लिंक के माध्यम से रु. 250/- (ऑनलाइन ट्रांसैक्शन शुल्क सहित) के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अक्षम व्यक्तियों की श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना है। एक बार जमा किया गया शुल्क, किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जाएगा।
4. ऑनलाइन आवेदन, जमा करने की अंतिम तिथि से पहले एनआईओएस की वेबसाइट पर भरा जा सकता है जिसके बाद यह लिंक बंद हो जाएगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी जाती है। **एनआईओएस द्वारा कोई भी ऑफलाइन आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
5. उम्मीदवार फॉर्म को ऑनलाइन ध्यानपूर्वक भरें और अपनी फोटो, हस्ताक्षर तथा शैक्षिक योग्यताओं, कार्य अनुभव इत्यादि के स्व-सत्यापित प्रमाणपत्र अपलोड करें।
6. उम्मीदवार फॉर्म को सफलतापूर्वक भरने तथा दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद भविष्य में संदर्भ के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाली संदर्भ संख्या नोट करें।
7. आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाएगी तथा चुने गए उम्मीदवारों को वर्चुअल/प्रत्यक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
8. वर्चुअल/प्रत्यक्ष साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों को **केवल ईमेल** के माध्यम से सूचित किया जाएगा। उम्मीदवार को किसी अन्य माध्यम से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा।
9. किसी अन्य पूछताछ के लिए कृपया recruitmentcell@nios.ac.in पर संपर्क करें।
10. चयनित उम्मीदवारों को तुरंत कार्यभार ग्रहण करना होगा।
11. इस संबंध में सूचना/जानकारी के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से एनआईओएस वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। यदि कोई शुद्धिपत्र/तिथि बढ़ाने संबंधी/अद्यतन सूचना आदि होगी तो एनआईओएस की वेबसाइट पर ही प्रकाशित की जाएगी।

सचिव